



# Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 2024000999R Receipt Date 29-NOV-2024 10:37  
S R Location NEEMRANA  
Receipt No RJ1000933349477  
Name Of Seller GARVIT AGARWAL ADV  
Name Of Buyer NIRMAL BUILDERS  
Type of Document Others - Search  
ACC Reference NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR



## Paid Fees

Stock Holding Corporation of India Limited

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 50
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50	Service Charges	₹ 10
Grand Total ( Rupees Sixty Only )	₹ 60		



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



# Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 2024000999R Receipt Date 29-NOV-2024 10:37  
S R Location NEEMRANA  
Receipt No RJ1000933349477  
Name Of Seller GARVIT AGARWAL ADV  
Name Of Buyer NIRMAL BUILDERS  
Type of Document Others - Search  
ACC Reference NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR



## Paid Fees

Stock Holding Corporation of India Limited

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 50
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50	Service Charges	₹ 10
Grand Total ( Rupees Sixty Only )	₹ 60		



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Dated: 29-11-2024

**SEARCH REPORT**

This search report is carried out on request of Nirman Builders, Through its partner Shri Sandeep Kumar for registration of their project "Utsav" before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority and report is submitted herein under. This search report is for the property, as mentioned below in schedule of property.

**Name of the Owner** – Nirman Builders, through its partner Shri Sandeep Kumar.

**Nature of Property**- Residential Project under Chief Minister Jan Awas Yojna Model 3A.

**Purpose** – Registration of Project "Utsav" before Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur.

**Schedule of Immovable Property-**

S. No.	Owner Name	Khasra Ownership
1.	Nirman Builders, through its partner Shri Sandeep Kumar.	Khasra No. 1796 and Khasra No. 1797 situated at Village-Kuteena, Tehsil-Neemrana, District-Kotputli-Behror (hereinafter referred to as "Project Land")

I, Garvit Agarwal, Advocate have caused necessary searches for the period of 1 year (According to the available record) of which the records kept at the office of the Sub-Registrar, Neemrana, Kotputli Behror dated 29-11-2024 and have inspected all other relevant documents in respect of the aforesaid property.

**Noted: Original Paper have been perused from the date of issuance of Lease deed dated 30.07.2024 till date.**



My Search Report is as follows:

Lease Deed dated 30.07.2024 land bearing Khasra No. 1796 and Khasra No. 1797 situated at Village-Kuteena, Tehsil-Neemrana, District-Kotputli-Behror with a total area admeasuring of 9000 square meters in favour of Promoter which was registered in the office of Sub-Registrar, Neemrana, Kotputli Behror on 23.08.2024 at Book No. 1, Volume No. 275, Page No. 30 with Sr. No. 2024030120102959 and its copy is pasted at Additional Book No. 1, Volume No. 1102, Page No. 397 to 428.

In this manner, Nirman Builders through its partner Shri Sandeep Kumar became the owner of the land bearing Khasra No. 1796 and Khasra No. 1797 situated at Village-Kuteena, Tehsil-Neemrana, District-Kotputli-Behror with a total area admeasuring of 9000 square meters.

**ULC Applicability:**

Urban Land Ceiling act is **Not Applicable** in state of Rajasthan and hence no clearance under ULC is required to be obtained.

The receipt for the relevant searches is enclosed herewith.

Jaipur  
Date 29-11-2024

Add: B-23, Yamuna Badi  
Tonk Road, JAIPUR 302015 (Raj.)

  
Garvit Agarwal  
Advocate



Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : NEEMRANA

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 21-08-2024 6:01 PM

Fee Receipt No	: 202402120004531	Receipt Date	: 21/08/2024
Name	: M/S NIRMAN BUILDERS BY PARTNER SANDEEP KUMAR,	Document S. No.	: 202401120004455
Address	: 0 ,GINDO KHAR 113 ,REWARI ,REWARI		
Document Type	: New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change		
Face Value	: ₹ 448332	Evaluated Value	: ₹ 81666458
Ord-Registration Fee	: ₹ 4484	Fee for Memorandum Us 64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us 57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8070	Stamp Duty	: ₹ 26900
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
Site Inspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 39754
		Total Amount	: ₹ 39754

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

# e-Gras Challan 93453691 ₹ 39754


Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient  
and date of return receipt

Sandeep Kumar  
SUB-REGISTRAR  
कोटपूतली बहरोड़






**Presentation Endorsement**

Print Date: 8/21/2024 6:03:21 PM

आज दिनांक 21 माह 08 सन् 2024 को 05:48 PM बजे  
श्री/श्रीमती/मुश्री M/S NIRMAN BUILDERS BY PARTNER SANDEEP  
KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HAWA SINGH  
उम्र 43 वर्ष, जाति 0-AHIR, व्यवसाय Business  
निवासी House No.:0, Colony: GINDO KHAR 113, Area: NA, City:  
REWARI, Pin code: 123401, District: REWARI, State: HARYANA  
ने मेरे सामुख स्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
202401120004455

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

  
हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
NEEMRANA

**Fees Receipt Endorsement**

Print Date: 8/21/2024 6:03:21 PM


रसीद नं.	202402120004531
दिनांक	21-08-2024
पंजीयन शुल्क ₹	4484
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	26900
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	8070
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	39754

202401120004455

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 93453691 ₹ 39754

  
उप पंजीयक, NEEMRANA






# Endorsement of Execution

Print Date: 8/21/2024 6:03:21 PM

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

- 1 श्री/श्रीमती/सुश्री M/S NIRMAN BUILDERS BY PARTNER SANDEEP KUMAR, पुत्र/पुत्री/पति श्री HAWA SINGH, व्यवसाय Businessजानि 0-AHIR  
House No.:0, Colony: GINDO KHAR 113, Area: NA, City: REWARI, Pin code: 123401, District: REWARI, State: HARYANA
- 2 श्री/श्रीमती/सुश्री BIDA, पुत्र/पुत्री/पति श्री BIDA, व्यवसाय जानि Anya Sarkari Upkram

छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
		Executant Age : 43 Signature : 
		Claimant Age : 0 Signature :







ने लेख्यपत्र New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 448332/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 448332/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता


- 1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री BRIJESH KUMAR YADAV, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMVEER YADAV जाति AHIR  
Age: 32  
Add: House No.:0, Colony: NA, Area: MUNDANWADA KALAN, City: MUNDAWAR, Pin code: 301427, District: ALWAR, State: RAJASTHAN
- 2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KHAJAN SINGH, पुत्र/पुत्री/पति श्री MOOL SINGH जाति RAJPUT  
Age: 32  
Add: House No.:0, Colony: NA, Area: KOLILA JOGA, City: NEEMRANA, Pin code: 301020, District: KOTPUTLI - BEHROD&#13;&#10;, State: RAJASTHAN

छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
		Signature: 
		Signature: 

202401120004455

उप पंजीयक, NEEMRANA

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change



Under 54 Endorsement

Print Date:8/23/2024 10:27:17 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 448332 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 26900 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 4484, सरचार्ज राशि 8070 कुल रु 39454 रसीद संख्या 202402120004531 दिनांक 21-08-2024 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 26900 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401120004455

  
उप पंजीयक, NEEMRANA

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change

Registration Endorsement

Print Date:8/23/2024 10:27:17 AM

आज दिनांक 23/08/2024 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 275 में  
पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202403120102959 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1102 के  
पृष्ठ संख्या 397 से 428 पर चस्पा किया गया।

202401120004455

  
उप पंजीयक, NEEMRANA

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change



# भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का (टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत)

—:पट्टा विलेख:—



यह विलेख आज वर्ष 2024 के माह 7 के 30 वें दिन भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (जिसे इसके बाद विकास प्राधिकरण कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं निर्माण बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हवासिंह निवासी- ए-57, सनसीटी, सैक्टर-6, 7, रेवाडी (हरियाणा) (मूल खातेदारों की सहमति के आधार पर) (जिनको इसके बाद लीजधारक कहकर संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रीमियम शुल्क देय नहीं है एवं बाह्य विकास स्वयं के स्तर पर निष्पादित किया जाने के कारण विकास शुल्क देय नहीं है व अन्य शुल्क जिसकी रसीद प्राधिकरण के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और शेष अन्य प्रभार जिसकी रसीद विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में विकास प्राधिकरण इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो राजस्व ग्राम कुतीना तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली-बहरोड के खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.50 है, खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.40 है कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 है कटेयर भूमि में से तैयार/अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना (3ए) आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए आवंटन योग्य क्षेत्रफल 8970.24 वर्गमीटर है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये साईट प्लान में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे विकास प्राधिकरण समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण ((शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर वार्षिक लीज राशि 1,97,345/- रु. का आठ गुणा राशि एक मुश्त लीज राशि रुपये 15,78,762/- मात्र जरिये रसीद संख्या 819/37 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा एक मुश्त जमा करा दी गई है के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् और विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टा निर्माण बिल्डर्स के लिए 99 वर्ष के लिए होंगे।

*Sandeep Kumar*  
पट्टाग्रहिता Partner

प्रभादी अधिकारी निरमन  
भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

उप पजीयक नीमराणा  
कोटपूतली बहरोड



4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल मुख्यमंत्री जन आवास योजना (3ए) आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए विकास प्राधिकरण को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए नियमानुसार राशि जमा करानी होगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निर्बंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो विकास प्राधिकरण उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित विकास प्राधिकरण में निहित समझे जायेंगे, और विकास प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

**For NIRMAN BUILDERS**

*Sandeep Kumar*  
**Partners**

पट्टाग्रहिता

*[Signature]*  
**प्रभासी अधिकारी नियोजन**  
**मिवाडी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्राधिकरण**

कस्बे/तहसील का नाम: ग्राम कुतीना तह0  
नीमराणा  
राजस्व ग्राम: कुतीना  
खसरा नम्बर:- 1796, 1797 किता 02  
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री जन आवास योजना  
(3ए) आवासीय प्रयोजनार्थ  
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर  
संलग्न साईट प्लान अनुसार 8970.24 वर्गमीटर

पडौस का विवरण

पूर्व: अन्य भूमि पश्चिम: अन्य भूमि  
उत्तर: 60 मीटर रोड दक्षिण: अन्य भूमि  
(NH-48)

साईट प्लान संलग्न है।

नोट :- उक्त प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु लीजडीड जारी की जाती है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्राधिकरण की ओर से

आज सन् 2024 के माह 7 के 30 वें  
दिन ने निम्न की उपस्थिति  
में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

साक्षी :-

1. नाम श्री रतन लाल जाटव  
व्यवसाय : आईएलआर  
निवास स्थान बीडा भिवाडी

आज सन् 2024 के माह 7 के 30 वे दिन  
को निम्नलिखित की उपस्थिति में निर्माण बिल्डर्स  
जरिये पार्टनर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हवासिंह  
निवासी- ए-57, सनसीटी, सैक्टर-6, 7, रेवाडी  
(हरियाणा) लीज लीजधारक द्वारा कार्यालय भिवाडी  
इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण में हस्ताक्षर किये गये।  
साक्षी :-

1. नाम कपिलसिंह नाकम बहरोड़  
पुत्र कपिलसिंह  
व्यवसाय विजारा मन्त्र  
निवास स्थान विजारा मन्त्र

2. नाम Arpit Aggarwal  
पुत्र Raj Kumar Aggarwal  
व्यवसाय PLC मन्त्र  
निवास स्थान विजारा मन्त्र

उप पंजीयक नीमराणा  
कोटपूतली बहरोड़

प्रमारी अविवासी दियमन  
भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण - प्रथम पक्ष  
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी


For NIRMAL BUILDERS  
Sandeep Kumar  
Partners

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी

साक्षी





1. TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE RECORD = 9000.00 Sq.M.
2. AREA AS PER SUPERIMPOSITION = 8992.14 Sq.M.
3. SURRENDER IN 60.0 M. WIDE ROAD = 21.90 Sq.M.
4. NET PLOT AREA = 8970.24 Sq.M.

**BUILDING PARAMETERS**  
• MINIMUM SET BACK = 9.0 M, 4.50 M,  
= 4.50 M, 4.50 M



**SITE PLAN FOR CMJAY (3A)**  
**AT KHASRA NO.- 1796 & 1797**  
**VILLAGE:- KUTEENA, TEH- NEEMRANA,**  
**DIST.- KOTPUTLI-BEHROR (RAJ.)**

**BIDA**

JEN/AEN  
BIDA

PATWARI/ILR  
BIDA  
03/05/24

TEHSILDAR  
BIDA  
03/05/2024

XEN  
BIDA  
3/5

ATP  
BIDA  
3/5/24

DTP  
BIDA  
03.05.2024

CEO  
BIDA  
25/5/24

**BHIWADI INTEGRATED DEVELOPMENT AUTHORITY**




Registration Endorsement

Print Date: 8/23/2024 10:28:20 AM

आज दिनांक 23/08/2024 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 275 में  
पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202403120102959 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1102 के  
पृष्ठ संख्या 397 से 428 पर चस्पा किया गया।

202401120004455

  
उप पंजी क, NEEMRANA

New Lease on Freehold/Leasehold basis after land use change